



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 117]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 19, 2007/फाल्गुन 28, 1928

No. 117]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 19, 2007/PHALGUNA 28, 1928

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2007

सा.का.नि. 208 (अ).—अखिल भारतीय सेवाएँ अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार से परामर्श करने के उपरांत अखिल भारतीय सेवाएँ (अवकाश) नियमावली, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (i) इन नियमों का नाम अखिल भारतीय सेवाएँ (अवकाश) द्वितीय संशोधन नियमावली, 2007 है।
(ii) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. अखिल भारतीय सेवाएँ (अवकाश) नियमावली, 1955 में, नियम 10, उप-नियम (1) में:—

(क) खंड (क) के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“बशर्ते कि उत्तर-पूर्व में कार्यरत सेवा के किसी सदस्य या जो किसी उत्तर-पूर्व राज्य में अन्तर-संवर्ग प्रतिनियुक्ति पर जाता है, के अवकाश खाते में एक कैलेण्डर वर्ष में 40 दिन का अर्जित अवकाश जोड़ दिया जाएगा। यह प्रत्येक वर्ष पहली जनवरी तथा पहली जुलाई को प्रति 20 दिन के हिसाब से दो किशतों में अग्रिम तौर पर किया जाएगा।”

(ख) खंड (घ) के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“बशर्ते कि उत्तर-पूर्व में कार्यरत सदस्य या उत्तर-पूर्व राज्य में अन्तर-संवर्ग प्रतिनियुक्ति पर सेवा के किसी सदस्य के अवकाश लेखा में सेवा के पूरे प्रत्येक कैलेण्डर मास के लिए 3-1/3 दिनों की दर से अर्जित अवकाश जोड़ा जाएगा।”

(ग) खंड (ङ) के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“बशर्ते कि आधे साल के लिए जिसमें उत्तर-पूर्व में कार्यरत या उत्तर-पूर्व राज्य में अन्तर-संवर्ग प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत सेवा का सदस्य सेवानिवृत्त होने वाला है या सेवा से त्याग-पत्र देने वाला है, तो उसके अवकाश खाते में प्रत्येक पूरे कैलेण्डर मास के लिए 3-1/3 की दर से जोड़ा जाएगा।”

(घ) खंड (च) के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“बशर्ते कि जब उत्तर-पूर्व में कार्यरत या उत्तर-पूर्व में अन्तर-संवर्ग प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत सेवा का कोई सदस्य सेवा से हटाया या बर्खास्त किया जाता है तो उसके अर्जित अवकाश के खाते में प्रत्येक कैलेण्डर मास के लिए 3-1/3 की दर पर अर्जित अवकाश अनुमत्य किया जाएगा।”

(ङ) खंड (छ) के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

[नोट :-उप नियम (1) में (क), (घ), (ङ), (च) खंडों में परन्तुकों के लिए “उत्तर-पूर्व” या “उत्तरी-पूर्वी राज्य” का आशय असम, मेघालय, मणिपुर-त्रिपुरा, नागालैण्ड तथा सिक्किम के उत्तर-पूर्व संवर्ग होगा।]

[फा. सं. 11019/70/2005-अ.भा.से.-III]

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

नोट :-मूल नियम दिनांक 12 सितम्बर, 1955 की अधिसूचना संख्या 5/2/53-अ.भा.से.-III के तहत दिनांक 17 सितम्बर, 1955 के सं. सा.का.नि. 1979 के अंतर्गत प्रकाशित किए गए थे तथा तत्पश्चात् निम्नलिखित के तहत संशोधित किए गए:-

| क्रम सं. | अधिसूचना सं. | दिनांक | सा.का.नि. सं. | दिनांक |
|----------|------------------------------|------------|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 14/9/66-अ.भा.से.(III) | 19-10-1966 | 1633 | 29-10-1966 |
| 2. | 14/2/68-अ.भा.से.(III) | 5-9-1968 | 1562 | 14-09-1968 |
| 3. | 7/1/73-अ.भा.से.(III) | 2-1-1975 | 39 | 18-1-1975 |
| 4. | 1/9/74 अ.भा.से.(III) | 10-6-1975 | 754 | 21-06-1975 |
| 5. | 11019/5/76-अ.भा.से.(III) | 20-6-1977 | 815 | 25-6-1977 |
| 6. | 11019/7/76-अ.भा.से.(III) | 20-6-1977 | 816 | 26-6-1977 |
| 7. | 25011/46/76-अ.भा.से.(III)(ख) | 28-3-1978 | 451 | 8-4-1978 |
| 8. | 11019/9/76-अ.भा.से.(III) | 17-7-1977 | 1109 | 31-7-1976 |
| 9. | 11019/13/77-अ.भा.से.(III) | 1-7-1977 | 431(अ) | 1-7-1977 |
| 10. | 11019/3/1977-अ.भा.से.(III) | 28-6-1978 | 894 | 15-7-1978 |
| 11. | 11019/14/1978-अ.भा.से.(III) | 27-1-1979 | 190 | 10-2-1979 |
| 12. | 25011/34/77-अ.भा.से.(III)(ख) | 12-2-1978 | 254 | 18-2-1978 |
| 13. | 11019/40/77-अ.भा.से.(III) | 22-2-1979 | 366 | 10-3-1979 |
| 14. | 11019/5/78-अ.भा.से.(III) | 19-4-1980 | 475 | 3-5-1980 |
| 15. | 11019/17/79-अ.भा.से.(III) | 28-4-1980 | 950 | 29-9-1980 |
| 16. | 11019/25/90-अ.भा.से.(III) | 4-11-1982 | 931 | 20-11-1982 |
| 17. | 11019/24/81-अ.भा.से.(III) | 13-4-1983 | 338 | 30-4-1983 |
| 18. | 11019/25/83-अ.भा.से.(III) | 3-2-1984 | 153 | 18-2-1984 |
| 19. | 11019/10/84-अ.भा.से.(III) | 15-11-1985 | 1111 | 30-11-1985 |
| 20. | 11019/16/85-अ.भा.से.(III) | 26-5-1986 | 411 | 7-6-1986 |
| 21. | 11019/10/86-अ.भा.से.(III) | 14-5-1987 | 406 | 30-5-1987 |
| 22. | 11019/11/88-अ.भा.से.(III) | 29-3-1989 | 397(अ) | 29-3-1989 |
| 23. | 11019/4/88-अ.भा.से.(III) | 8-1-1990 | 45 | 27-1-1990 |
| 24. | 11019/6/90-अ.भा.से.(III) | 11-4-1991 | | |
| 25. | 11019/2/90-अ.भा.से.(III) | 6-2-1992 | 94(अ) | 11-2-1992 |
| 26. | 11019/6/91 अ.भा.से.(III) | 3-5-1993 | 252 | 22-5-1993 |
| 27. | 11019/3/91-अ.भा.से.(III) | 2-9-1992 | 422 | 26-9-1992 |
| 28. | 11019/7/93-अ.भा.से.(III) | 22-12-1993 | 52 | 22-12-1999 |
| 29. | 11019/6/97-अ.भा.से.(III) | 3-3-1998 | 60 | 14-3-1999 |
| 30. | 11014/15/2003-अ.भा.से.(III) | 19-10-2004 | 373 | 30-10-2004 |

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2007

G.S.R. 208(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the State Governments, hereby makes the following rules further to amend the All India Services (Leave) Rules, 1955, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Services (Leave) Second Amendment Rules, 2007.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the All India Services (Leave) Rules, 1955, in rule 10, in sub-rule (1),—

(a) after clause (a) the following shall be inserted, namely :—

“Provided that the leave account of a member of the Service working in the North East or who goes on inter-cadre deputation to a North Eastern State shall be credited 40 days earned leave in calendar year. This shall be done in advance in two instalments of 20 days each on the 1st of January and July, every year”.

(b) after clause (d), the following shall be inserted, namely :—

“Provided that earned leave shall be credited to the leave Account at the rate of 3-1/3 days for each completed calendar month of service for a member of the Service working in the North East or on inter-cadre deputation to a North Eastern State”.

(c) after clause (e), the following shall be inserted, namely :—

“Provided that the credit for the half year in which a member of the Service working in the North East or on inter-cadre deputation to a North Eastern State is due to retire or resign from service shall be afforded at the rate of 3-1/3 days for each completed calendar month”.

(d) after clause (f), the following shall be inserted, namely :—

“Provided that when a member of the Service working in the North East or on inter-cadre deputation to a North Eastern State is removed or dismissed from the service, credit of earned leave shall be allowed at the rate of 3-1/3 days for each calendar month”.

(e) after clause (g), the following shall be inserted, namely :—

[Note : For the provisos in clauses (a), (d), (e), (f), in sub-rule (1), “North East” or “North Eastern State” shall mean North East cadres of Assam-Meghalaya, Manipur-Tripura, Nagaland and Sikkim.]

[F.No. 11019/70/2005-AIS-III]

G. C. PANDEY, Under Secy.

Note : The principal rules were published *vide* notification No. 5/2/53-AIS(II), dated, the 12th September, 1955 in Gazette of India under number G.S.R. 1979, dated the 17th September, 1955 and subsequently amended *vide* :

| Sl. No. | Notification No. | Date | GSR No. | Date of Publication |
|---------|------------------------|------------|---------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 14/9/66-AIS(III) | 19-10-1966 | 1633 | 29-10-1966 |
| 2. | 14/2/68-AIS(III) | 5-09-1968 | 1562 | 14-09-1968 |
| 3. | 7/1/73-AIS(III) | 02-01-1975 | 39 | 18-1-1975 |
| 4. | 1/9/74-AIS(III) | 10-06-1975 | 754 | 21-06-1975 |
| 5. | 11019/5/76-AIS(III) | 20-06-1977 | 815 | 25-6-1977 |
| 6. | 11019/7/76-AIS(III) | 20-06-1977 | 816 | 26-6-1977 |
| 7. | 25011/46/76-AIS(III) B | 28-03-1978 | 451 | 8-4-1978 |
| 8. | 11019/9/76-AIS(III) | 17-07-1977 | 1109 | 31-7-1976 |
| 9. | 11019/13/77-AIS(III) | 01-07-1977 | 431(E) | 1-7-1977 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|------------------------|------------|--------|------------|
| 10. | 11019/3/1977-AIS(III) | 28-06-1978 | 894 | 15-7-1978 |
| 11. | 11019/14/1978-AIS(III) | 27-01-1979 | 190 | 10-2-1979 |
| 12. | 25011/34/77-AIS(II) B | 12-02-1978 | 254 | 18-2-1978 |
| 13. | 11019/40/77-AIS(III) | 22-02-1979 | 366 | 10-3-1979 |
| 14. | 11019/5/78-AIS(III) | 19-04-1980 | 475 | 3-5-1980 |
| 15. | 11019/17/79-AIS(III) | 28-04-1980 | 950 | 29-9-1980 |
| 16. | 11019/25/90-AIS(III) | 04-11-1982 | 931 | 20-11-1982 |
| 17. | 11019/24/81-AIS(III) | 13-04-1983 | 338 | 30-4-1983 |
| 18. | 11019/25/83-AIS(III) | 03-02-1984 | 153 | 18-2-1984 |
| 19. | 11019/10/84-AIS(III) | 15-11-1985 | 1111 | 30-11-1985 |
| 20. | 11019/16/85-AIS(III) | 26-05-1986 | 411 | 7-6-1986 |
| 21. | 11019/10/86-AIS(III) | 14-05-1987 | 406 | 30-5-1987 |
| 22. | 11019/11/88-AIS(III) | 29-03-1989 | 397(E) | 29-3-1989 |
| 23. | 11019/4/88-AIS(III) | 08-01-1990 | 45 | 27-1-1990 |
| 24. | 11019/6/90-AIS(III) | 11-04-1991 | | |
| 25. | 11019/2/90-AIS(III) | 06-02-1992 | 94(E) | 11-2-1992 |
| 26. | 11019/6/91-AIS(III) | 03-05-1993 | 252 | 22-5-1993 |
| 27. | 11019/3/91-AIS(III) | 02-09-1992 | 422 | 26-9-1992 |
| 28. | 11019/7/93-AIS(III) | 22-12-1993 | 52 | 22-12-1999 |
| 29. | 11019/6/97-AIS(III) | 03-03-1998 | 60 | 14-3-1998 |
| 30. | 11019/15/2003-AIS(III) | 19-10-2004 | 373 | 30-10-2004 |